

हमीरपुर पुलिस

सोशल मीडिया सेल

दिनांक:-22-09-2019

एंटीरोमियों चेकिंग/जागरूकता अभियान

आज दिनांक 22/09/2019 को पुलिस अधीक्षक श्री हेमराज मीना के दिशा-निर्देशन में महिलाओं संबंधित अपराधों की रोकथाम हेतु जनपद में चलाये गए अभियान के क्रम में जनपद पुलिस टीमों द्वारा अपने-02 थाना क्षेत्र में स्कूल/बाजार/बस स्टैंड/ज्वेलर्स की दुकानों/सार्वजनिक स्थानों में एंटीरोमियों चेकिंग की गई बिना वजह घूमने वाले आवारा टाइप के लड़कों को चेक किया गया व कड़ी चेतावनी देकर छोड़ा गया साथ ही छात्राओं से उनकी सुरक्षा के सम्बंध वार्ता की गई व यूपी पुलिस द्वारा चलाई जा रही सुरक्षा संबंधित एप्लिकेशन/100 नंबर/वूमेन पावर हेल्प लाइन 1090 व पुलिस सोशल मीडिया के बारे में बताकर जागरूक किया गया।



शांतिभंग में कार्यवाही

थाना जलालपुर पुलिस द्वारा अभियुक्त सोनू पुत्र कमल सिंह निवासी ग्राम कुपरा थाना जलालपुर हमीरपुर को शांति व्यवस्था भंग की आशंका में धारा 151/107 /116 सी0आर0पी0सी0 में गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की गयी।



थाना कुरारा पुलिस द्वारा अभियुक्तगण 1. तुलसीराम पुत्र सिद्धगोपाल निषाद निवासी भौली थाना कुरारा जनपद हमीरपुर, 2.शिवमंगल पुत्र बहू केवट निवासी भौली थाना कुरारा जनपद हमीरपुर को शांति व्यवस्था भंग की आशंका में धारा 151/107 /116 सी0आर0पी0सी0 में गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की गयी।



पैदल गस्त

आज दिनांक 21/09/2019 को पुलिस अधीक्षक श्री हेमराज मीना के निर्देशन मे जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षकों द्वारा विधानसभा उपचुनाव के दृष्टिगत अपने-02 थाना क्षेत्र में पैदल गस्त किया गया गस्त के दौरान मुख्यतः चौराहों/बाजार/मुख्य सड़क/ढाबों/होटलों/भीड़भाड़ वाले स्थानों/अंतर्जनपदीय बॉर्डर पर विशेष चेकिंग अभियान चलाकर संदिग्ध व्यक्तियों, वस्तुओं, वाहनों की चेकिंग की गयी।



दिनांक 21/09/2019 को जिलाधिकारी महोदय व पुलिस अधीक्षक हमीरपुर द्वारा बाढ़ राहत केंद्र कुछेछा का निरीक्षण किया एवं बाढ़ प्रभावित व्यक्तियों को लंच पैकेट का वितरण किया गया साथ ही बचाव/राहत कार्यो में लगे अधिकारियों/कर्मचारियों को बाढ़ प्रभावित लोगों को जान-माल की क्षति से बचाने व प्रभावित लोगों को हर संभव मदद करने हेतु निर्देशित किया गया।

